

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग-1

संख्या : 06/GOI/1/2019/03/03/2018

देहरादून : दिनांक 11 मार्च, 2019

अधिसूचना


इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की गाईडलाईन और मानकों के सम्बन्ध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 12/22018-EV दिनांक 14.12.2018 के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

06/GOI/


संख्या- (2)/1/2019/03/03/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ब्लाक-14, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003.
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. अनु सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
9. उपनिदेशक, राजकीय फोटो लिथोप्रेस राजेन्द्र नगर, रुड़की।
10. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।


(राधिका झा)
सचिव।

आज्ञा से,


(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।